

बिहार के लखीसराय में पावर ग्रिड सब-स्टेशन के वसतिार की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों?

- 18 अगस्त, 2023 को केंद्रीय वदियुत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सहि ने बिहार के लखीसराय में पावरग्रिड के 400/132 केवी लखीसराय उप-स्टेशन के वसतिार की आधारशिला रखी ।

प्रमुख बदि

- इस उप-स्टेशन का नरिमाण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा कयिा गया है । यह भारत सरकार के वदियुत मंत्रालय के अधीन एक महारतन केंद्रीय सार्वजनिक कषेत्र उदयम है ।
- परयोजना के हसिसे के रूप में, मौजूदा सब-स्टेशन परसिर में 500 एमवीए कषमता के 2 ट्रांसफार्मर की स्थापना के साथ 220 केवी जीआईएस का नरिमाण कयिा जाएगा ।
- केंद्रीय वदियुत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सहि ने कहा कलखीसराय में पावर ग्रिड के सब स्टेशन के वसतिार से कषेत्र में बजिली की उपलब्धता में काफी सुधार होगा । इससे पूरे बिहार को फायदा होगा ।
- लखीसराय में सबस्टेशन के वसतिार से लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई जिलों में बजिली की उपलब्धता में सुधार होगा और भवषिय की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लयिे बजिली की आपूर्ति में भी आसानी होगी ।
- लखीसराय सब-स्टेशन में 220 केवी वोल्टेज स्तर की अत्याधुनिक जीआईएस तकनीक की स्थापना से कषेत्र की राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी और मज़बूत होगी । नरिबाध बजिली आपूर्ति के प्रावधान से कषेत्र का औद्योगिक और वाणजियक विकास भी होगा ।



PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/foundation-stone-laid-for-expansion-of-power-grid-sub-station-at-lakhisarai>

